

**भाग – III****हरियाणा सरकार**

न्याय प्रशासन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

**संख्या का०आ० 70/के०अ० 5/1938/धा० 9/2018.**— युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम 5), की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र के रूप में परिनिश्चित करते हैं, जिसमें प्रथम अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए नियत काल पर 100 मीटर बेफल फायरिंग रेंज के फायरिंग अभ्यास को प्राधिकृत किया जा सके।

<b>अनुसूची</b>		
गांव का नाम	जिला	क्षेत्र
1	2	3
दमदमा (पिन्जौर)	पंचकूला	87 बीधा तथा 9 बिस्वा, जिसमें फायरिंग रेंज, सी.आर.पी.एफ, ग्रुप केन्द्र, पिन्जौर (हरियाणा) का खसरा सं० 190 शामिल है।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**  
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

**Notification**

The 25th October, 2018

**No. S.O. 70/C.A. 5/1938/S. 9/2018.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Moeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act-5 of 1938), the Governor of Haryana hereby defines the area specified in the Schedule given below as an area within which the carrying out periodically of firing practice of 100 meter. Baffle Firing Range may be authorized for a period from the 1st April, 2018 to 31st March 2021.

**SCHEDULE**

Name of Village	District	Area
1	2	3
Damdama (Pinjore)	Panchkula	87 Bigas & 9 Biswa comprising Khasra No. 190 of Firing Range, CRPF, GC, Pinjore (Haryana)

DR. S. S. PRASAD,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Administration of Justice Department.